



## DEPARTMENT OF PHYSICS

Govt. V.Y.T. PG Autonomous College, Durg,  
(Chhattisgarh), India

Email : [physics@govtsciencecollegedurg.ac.in](mailto:physics@govtsciencecollegedurg.ac.in)

Facebook : [www.facebook.com/physicsvtytpg](https://www.facebook.com/physicsvtytpg)



### EXTENSION ACTIVITY OF DR JAGJEET KAUR SALUJA, PROFESSOR (PHYSICS)

1. Dr Jagjeet Kaur Saluja has given an invited talk in One day workshop on Divisional level NAAC evaluation at Govt. W.W Patankar College, Durg (C.G.) on 9 December 2022.

**संभाग स्तरीय नैक मूल्यांकन कार्यशाला**

## गुणवत्ता के लिए मिशन मोड पर कार्य करें

पत्रिका न्यूज नेटवर्क  
patrika.com

भिलाई. कन्या महाविद्यालय दुर्ग में उच्च शिक्षा विभाग के तत्वावधान में संभाग स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला हुई। जिसमें दुर्ग संभाग के सभी जिलों के प्राचार्य और आईक्यूएसी समन्वयक शामिल हुए। शासकीय महाविद्यालयों के लिए एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट के बारे में कार्यशाला हुई।

कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए क्षेत्रीय अपर संचालक उच्च शिक्षा डॉ. सुशील चन्द्र तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नैक मूल्यांकन के लिए वर्षा से मिशन मोड पर अभियान चलाया गया है और 160 शासकीय महाविद्यालय मूल्यांकित हो चुके हैं। दुर्ग संभाग के 90 प्रतिशत महाविद्यालय भी नैक द्वारा मूल्यांकित हो चुके हैं। डॉ. तिवारी ने कहा कि महाविद्यालय में गुणवत्ता के लिए मिशन मोड पर कार्य करना होगा तभी स्थायी रूप से संस्था का विकास एवं उन्नयन होगा।

**नैक में नवाचार जरूर**

डॉ. जी.ए. घनश्याम ने संशोधन में नैक मूल्यांकन के विभिन्न चरणबद्ध कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए कहा कि नैक द्वारा लगातार मूल्यांकन प्रक्रिया में संशोधन एवं नवाचार किया जा रहा है, जिससे सभी महाविद्यालयों की आईक्यूएसी को अपडेट रहने की जरूरत है।

डॉ. तिवारी ने आदर्श विभाग

**2. Dr Jagjeet Kaur Saluja has given an invited talk on Institutional Quality Improvement – Role of Governance, Leadership and Management at Govt. D.B. Girls PG. College, Raipur (C.G.) on 15 December 2022**





**पैनल डिस्कशन** कालीबाड़ी स्थित डिग्री गर्ल्स कॉलेज में वर्कशॉप, नेतृत्व पर हुआ मंथन

## ‘जो लोग काम नहीं करना चाहते उनसे काम लेना ही लीडरशिप है’

**कालीबाड़ी**  
patika.com

रायपुर, लीडरशिप...। इस एक सत्र में सारा जहां समाया हुआ है। घर हो या दफ्तर, मैनेजमेंट हो या राजनीति। हर जगह अच्छी लीडरशिप की जरूरत होती है। शहर के डिग्री गर्ल्स कॉलेज में गुरुवार दिनपर इसी टॉपिक पर चर्चा होती रही, जिसमें एक्सपर्ट प्रोफेसर ही नहीं बल्कि दो-चौ आईएएस भी शामिल हुए।

ग्रुप डिस्कशन ऑपरेट कर रही आईएएसएस इंवाज प्रो. उपाध्याय अग्रवाल ने पैनलिस्ट से सामान्य तौर पर पूछ लिया कि कोई काम ही नहीं करना चाहे तो लीडर क्या करे? इस पर एक पैनलिस्ट ने कहा कि भय बिना होना ही प्रोत्ति... इस सिद्धांत पर काम करना चाहिए। एक अन्य पैनलिस्ट ने कहा कि ऐसे सुविधा उपलब्ध कराई जाए कि वे काम करने का लिए प्रेरित हों। उनके जवाब पर प्रो. उपाध्याय ने एक और सवाल दाग दिया कि जिनमें काम करने की कर्बिलियत ही न हो तो? उपाध्याय ने कहा, कहां ऐसे लोग हैं जो मेल चेक करने के लिए भी किसी को नियुक्त करते हैं। आखिर में एक्सपर्ट जगजीत कौर सलुजा बोली- दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अधिकार और कर्तव्य। हम अधिकार



डिग्री गर्ल्स कॉलेज के सेमिनार हॉल में कार्यक्रम को संबोधित करते कलेक्टर। मंत्रस्थ प्रचार्य किरण गजपत।

**सामान्य हालातों में तो कोई भी अच्छा काम कर सकता है: कलेक्टर**

कलेक्टर डॉ. सर्वेस्वर भूरे ने कहा, मेरी बेसिक पढ़ाई गांव से हुई। ग्रैजुएशन के लिए मैं चुने गया। टॉपिंग एक नौकल प्रोफेशन है। आप भले किसी छत्र को याद न रख पाएं लेकिन विधायी आपको सदा याद रखता है। मेरे पिता भी लेक्चरर रहे हैं। मेरे राज्य के कुछ जिलों में काम करते हुए पाया कि यहां शिक्षा की गुणवत्ता का बहुत ज्यादा

स्कोप है। दसवीं-बारहवीं तक तो फिरने पास हुए यह देखा जाता है जबकि कॉलेज लेवल पर एग्जिटेशन रहता है। उन्होंने लीडरशिप का महत्व बताते हुए कहा कि सामान्य हालातों में तो कोई भी अच्छा काम कर सकता है। विपरीत परिस्थितियों में काम करना बेसीज होता है। यही अपनी लीडरशिप का टेस्ट होता है।

के लिए तो लड़ जाते हैं लेकिन कर्तव्य में पिछड़ जाते हैं। जिनसे काम लेना है उन्हें टास्क दीजिए। बीच-बीच में मॉनिटरिंग करते रहें। हो सकता है कि शुरू-शुरू में निगेटिव रिस्पॉन्स आए, लेकिन बाद में नतीजे बेहतर ही आएंगे। जो कुछ

नहीं करना चाहते उनसे काम लेना ही तो लीडरशिप है। कॉलेज में एक वर्कशॉप आयोजित की गई। टॉपिक था- इन्टीट्यूशनल क्वालिटी इयुक्मेंट: रोल ऑफ गवर्नर्स, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। वर्कशॉप की अध्यक्षता हाथर एजुकेशन

डिपार्टमेंट की कमिशनर शाखा वर्मा ने की जबकि समायोजन सब के पीक गेस्ट कलेक्टर डॉ. सर्वेस्वर भूरे थे। इस बीच ग्रुप डिस्कशन भी हुआ जिसका टॉपिक था- रोल ऑफ लीडरशिप इन डेवलपमेंट, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन।

**छात्रों के लिए प्रकाशमन्तं होते हैं महाविद्यालय**

शारदा वर्मा ने कहा, महाविद्यालय सिर्फ शिक्षा प्रदान करने का केंद्र नहीं है बल्कि विद्यार्थियों के लिए प्रकाशमन्तं के रूप में कार्य करता है जो सिर्फ नेतृत्व प्रबंधन व गवर्नर्स से संभव है। छात्रीसाइड कॉलेज के प्रोफेसर लोना बंद गुल ने कहा, सम्मन्धन व समर्थन प्रबंधन ही गुड गवर्नर्स का आधार होता है। जबकि डॉ. सम्राज या संस्था सभी में अभ्यास से ही गुणवत्ता लाई जा सकती है। प्रचार्य किरण गजपत ने कहा, प्रशासन नेतृत्व और बुद्धि प्रबंधन से किसी संस्था को उच्च शिखर में पहुंचाया जा सकता है। शीघ्र अगर संसाधक लोएल देवराज ने भी अपनी बात रखी। कार्यक्रम में बहुत गिरोलकर, एमएल वर्मा, प्रीति वर्मा, सवित्र मिश्रा, शैली भस्करनी, वीनू हावुख, रमा सरोजिनी, निषा वर्मा, बंधुज्योति, निमिषा पांडे, कल्पना मिश्रा आदि उपस्थित रहे।



### 3. Dr Jagjeet Kaur Saluja has given an invited talk in One day workshop on Emerging trends in science & technology at BIT, Raipur (C.G.) on 16 December 2022.

## TheHitavada

Raipur City Line | 2022-12-17 | Page- 4  
ehitavada.com

# Workshop on 'Emerging trends in Sceince and Technology' held at BIT

■ Staff Reporter  
RAIPUR, Dec 16

A ONE-DAY workshop on 'Emerging trends in Science and Technology' was held at BIT Raipur Friday. Keynote speakers of the event weas Dr Marta Michalska Domanska from Poland and Dr Omprakash Sahu, Senior Engineer at Mitsubishi Japan. Guest of honour was Professor and Head of Department of Physics at Government Science College (Durg) Dr Jagjeet Kaur Saluja and Dean ISBM University (Gariaband) Dr Kumar Swami.

Member Secretary of the Trust I P Mishra blessed the occasion with his gracious and august presence and inaugurated the research and development lab. In a brief address, he congratulated the staff and students of the college for such innovative venture.

The programme was inau-



Dignitaries and guests releasing the book titled 'Rare Earth Activated Phosphors' during the workshop at BIT, Raipur.

gurated with the lighting of lamp and followed by welcome address by the Convenor of the workshop Dean Research and Development, BIT Raipur Dr Vikas Dubey.

In his address, Dr Dubey shared the privilege to host a one-day workshop on the topic 'Emerging trends in Science and Technology' with such eminent key speakers of international repute. He also shared the fact that the college is

always looking forward to host such events to promote research among the students and staff.


In his welcome address, Principal of the college Dr R K Mishra threw light on the fact that post Covid, the students have developed a laid back attitude and that needs to be addressed fast. Congratulating the team for organising such an informative workshop would indeed act like a step for-

ward in this field, he added. He also welcomed Dr O P Sahu with a warm heart and shared with the students that Dr Sahu is from Bhilai and with his ability of research and hard work; he is working in a world-renowned firm like Mitsubishi.

This was followed by launching of the book titled 'Rare Earth Activated Phosphors'. The book is edited by Dr Vikas Dubey, Dr Neha Dubey, Dr Jayasimhadri and Dr Dhoble.

The second session witnessed Dr Marta from Poland delivering her keynote address. She spoke emphatically on the need of the research in the field of physics, and briefly discussed about the changing trends in the field of science and technology in her nation and surroundings. The workshop also had over 25 research paper presentations by students. This workshop was carried in hybrid mode.

**4. Dr Jagjeet Kaur Saluja has given an invited Lecture in International Conference at Govt. Digvijay Auto. College, Rajnandgaon (C.G.) on 06 February 2023.**



5. Dr Jagjeet Kaur Saluja has given an invited Lecture on Spectroscopic parameters analysis of Dy<sup>3+</sup> activated phosphors for photodynamic therapy in International Conference on Luminescence and its Applications (ICLA-2023) organized by CSIR-IICT, Hyderabad-500007, India and Luminescence Society of India from 3 to 6 July 2023.



7<sup>th</sup> International Conference on  
**Luminescence and its Applications (ICLA-2023),**  
3 – 6<sup>th</sup> July 2023

Organized by  
CSIR-IICT, Hyderabad-500007, India  
and

**Luminescence Society of India (Regd. No: GUJ/1156)**



Receipt No: «Receipt\_No\_»

**CERTIFICATE**

This is to certify that Prof./Dr/Mr./Ms **Jagjeet Kaur Saluja** is a registered participant of International Conference on Luminescence and its Applications (ICLA-2023). He/ She presented an Invited Talk / Invited Technical Talk / Oral / Poster PRESENTATION entitled “Spectroscopic parameters analysis of Dy<sup>3+</sup> activated phosphors for photodynamic therapy”.

6<sup>th</sup> July, 2023

**Dr. L. Giribabu,**  
Convener

**Dr. K. V. R. Murthy**  
President  
**Luminescence Society of India**  
Chairman, Organizing Committee ICLA-2023



Principal  
Govt. V.Y.T. P.G. Autonomous  
College, Durg (C.G.)